

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन 17-23 मई को नैशनल पब्लिक वर्क्स वीक का जश्न मना रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (19 मई, 2020) – 23 मई तक, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन उस महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाने के लिए नैशनल पब्लिक वर्क्स वीक (एन.पी.डबल्यू.डबल्यू.) (National Public Works Week) (NPWW) मना रही है, जो भूमिका हमारे समुदाय में पब्लिक वर्क्स पेशेवर निभा रहे हैं।

COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए सिटी के प्रयासों के दौरान, सिटी की पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग (Public Works and Engineering) टीम, ज़रूरी सेवाएं प्रदान करने के लिए, लगातार महत्वपूर्ण और ज़रूरी काम कर रही है। इन कामों में शामिल हैं: ज़रूरी सफर के लिए पगडंडियों, सड़कों और पुलों को सुरक्षित रखने के लिए निर्माण और देखभाल, सिग्नल और स्ट्रीटलाइट्स का प्रबंधन, बसंत ऋतु में की जाने वाली सफाई, कैच बेसिन (सीवर में कूड़ा जाने से रोकने के लिए लगाए गए डिब्बे) की सफाई और गलियों की सफाई।

बीते सालों में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने पूरा सप्ताह कई मज़ेदार और लोगों को शामिल करने वाली गतिविधियों के साथ, इस बारे में जागरूकता को बढ़ाकर एन.पी.डबल्यू.डबल्यू. (NPWW) का जश्न मनाया था कि पब्लिक वर्क्स सेवाएं रोज़ाना समुदाय को कैसे प्रभावित करती हैं। हालांकि इस साल कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, इसलिए सिटी निवासियों को सलाह देती है कि वे ब्रैम्पटन को सुरक्षित, साफ और गतिशील रखने में इन पेशेवरों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कामों के बारे में अधिक जानें। पूरा सप्ताह, @CityBrampton को [Twitter](#), [Facebook](#) और [Instagram](#) पर फॉलो करें या अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर जाएं।

### हवाले

“तूफान के पानी को स्ट्रीट्स में जाने से रोकने से लेकर, सड़कों और पुलों के निर्माण तक, पब्लिक वर्क्स पेशेवर, पूरा साल सिटी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि हम इस साल हमारे वार्षिक कार्यक्रमों के द्वारा उनके काम का जश्न नहीं मना सकते, मैं ब्रैम्पटन को सुरक्षित और तंदरुस्त शहर बनाने के लिए उनके द्वारा बिना थके लगातार काम करने के लिए, उनका धन्यवाद करता हूँ।”

– पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“नैशनल पब्लिक वर्क्स वीक, उस महत्वपूर्ण भूमिका का स्वागत करने की याद दिलाता है, जो पब्लिक वर्क्स, हमारे समुदाय में अच्छी ज़िंदगी को सहयोग करने में निभाता है। इस ग्रुप की मेहनत के कारण, हमारे निवासी इस मुश्किल समय में, सुरक्षित रूप से ज़रूरी सफर करने, अपनी बाइक्स चलाने और अपने आसपास सैर पर जाने के योग्य हैं।”

– पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग

“हमारे समुदाय को तंदरुस्त और सुरक्षित रखने के अलावा, हमारी पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग टीम, ब्रैम्पटन को हरा-भरा शहर बनाने की हमारी वचनबद्धता को पूरा करने पर भी काम करती है। हमारी नई शुरू की गई अंतरिम बाइक लेन जैसे क्रियाशील ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स में सहयोग से लेकर, गैसों आदि की निकासी को कम करने के लिए स्ट्रीट्स से बर्फ हटाने के खास उपकरण के उपयोग तक, उनके हर काम में हमारे पर्यावरण को पूरी प्राथमिकता दी जाती है।”

– पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग

“पूरा साल, हमारी पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग टीम, ब्रैम्पटन को सुरक्षित, साफ और गतिशील रखने में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस नैशनल पब्लिक वर्क्स वीक, में हमारे समर्पित फ्रंटलाइन स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लगातार ज़रूरी और महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिन पर हमारा समुदाय हर रोज़ निर्भर करता है।”

– डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)